

अनुक्रमांक

नाम :

136

329(FJ)

2024

अर्थशास्त्र

समय : तीन घण्टे 15 मिनट ।

[पूर्णांक : 100]

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं ।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper.

निर्देश : i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।

ii) प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखना है । प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में, प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है एवं प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में लिखना है ।

iii) प्रत्येक प्रश्न के लिये निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं ।

Instructions :

- All questions are compulsory.
- Question Numbers 1 to 10 are *Multiple Choice* Type for which only correct answer should be written in the answer-book. Question Numbers 11 to 18 are *Very Short Answer* Type, which are to be answered in about 50 words each, Question Numbers 19 to 24 are *Short Answer* Type, which are to be answered in about 150 words each and Question Numbers 25 to 27 are *Long Answer* Type, which are to be answered in about 300 words each.
- Allotted marks of all the questions are given against them.

[Turn over]

1. "अर्थशास्त्र के सिद्धान्त" नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी ?

- 3000 / 1335

8. विश्व में वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है
 अ) चीन
 ब) भारत
 स) अमेरिका
 द) इन्डोनेशिया 1
9. शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है
 अ) सकल घरेलू उत्पाद - घिसावट
 ब) सकल घरेलू उत्पाद + घिसावट
 स) सकल राष्ट्रीय उत्पाद - घिसावट
 द) सकल राष्ट्रीय उत्पाद + घिसावट 1
10. विश्व में आर्थिक मन्दी कब आई थी ?
 अ) 1920-1922 में
 ब) 1922-1925 में
 स) 1925-1926 में
 द) 1929-1930 में 1

Write the correct answers of the following questions in your answer-book :

1. Who wrote the famous book "Principles of Economics" ?
 a) Adam Smith
 b) Marshall
 c) Robbins
 d) Mehta 1
2. "What ought to be ?" is a subject matter of
 a) Positive Economics
 b) Normative Economics
 c) Both (A) and (B)
 d) None of these 1
3. How many factors of production are there in modern age ?
 a) 2
 b) 3
 c) 4
 d) 5 1
4. Willingness to obtain a commodity is called
 a) Desire
 b) Want
 c) Demand
 d) All of these
5. When marginal production increases, then total production increases which rate ?
 a) Increasing rate
 b) Constant rate
 c) Diminishing rate
 d) None of these

6. Who is the Finance Minister in India, at present ?
 - a) Narendra Modi
 - b) Amit Shah
 - c) Smriti Irani
 - d) Nirmala Sitharaman
7. Where is the headquarters of Reserve Bank ?
 - a) New Delhi
 - b) Mumbai
 - c) Kolkata
 - d) Chennai
8. Most populous country in the world at present is
 - a) China
 - b) India
 - c) America
 - d) Indonesia
9. Net Domestic Product is equal to
 - a) Gross Domestic Product – Depreciation
 - b) Gross Domestic Product + Depreciation
 - c) Gross National Product – Depreciation
 - d) Gross National Product + Depreciation
10. When did economic depression occur in the world ?
 - a) In 1920-1922
 - b) In 1922-1925
 - c) In 1925-1926
 - d) In 1929-1930

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

11. सीमान्त उपयोगिता क्या है ?

11. What is Marginal utility ?

12. आय (आगम) से आप क्या समझते हैं ?

12. What do you mean by Revenue ?

13. 'बाजार' शब्द से क्या अभिप्राय है ?

13. What is meant by the word 'Market' ?

14. औसत उत्पादन से क्या अभिप्राय है ? 3
14. What is meant by Average Production ? 3
15. पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है ? 3
15. What is meant by Full Employment ? 3
16. प्रभावपूर्ण मांग क्या है ? 3
16. What is effective demand ? 3
17. व्यापक अर्थशास्त्र क्या है ? 3
17. What is Macro-Economics ? 3
18. अन्तिम वस्तुयें क्या होती हैं ? 3
18. What are Final Goods ? 3

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

19. सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता में एक उदाहरण और चित्र की सहायता से सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 6
19. Establish relationship between Marginal utility and Total utility with the help of an example and diagram. 6
20. बजट रेखा से आप क्या समझते हैं ? एक उदाहरण और चित्र की सहायता इसे समझाइये । 2
20. What do you mean by Budget line ? Explain it with the help of an example and diagram. 2 +
21. स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को समझाइये ।
21. Explain Fixed cost, Variable cost and Total cost.
22. मुद्रा को परिभाषित कीजिए । इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए ।
22. Define money. Describe its main functions.

[Turn

23. राष्ट्रीय आय से आप समझते हैं ? अल्पविकसित देशों में इसे मापने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं ? 2 + 4

23. What is meant by National Income ? What are the difficulties which are faced in its estimation in underdeveloped countries ? 2 + 4

24. विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं ? यह कितने प्रकार की होती है ? 2 + 4

24. What do you understand by Foreign Exchange Rate ? What are its various types ? 2 + 4

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

(Long Answer Type Questions)

25. उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए । 4 +

अथवा

जब किसी वस्तु की कीमत 15 रुपये प्रति इकाई से 12 रुपये प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी माँग 40 इकाई से 50 इकाई हो जाती है । तो माँग की लोच ज्ञात कीजिए ।

25. What do you mean by an Indifference curve ? Discuss its salient features.

4

OR

When the price of a commodity declines from Rs. 15 per unit to Rs. 12 per unit, its demand increases from 40 units to 50 units. Calculate the elasticity of demand.

26. पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए । 4 + 6

अथवा

- केन्द्रीय बैंक क्या है ? इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए । 2 + 8

26. What do you mean by Perfect Competition ? Discuss its salient features.

4 + 6

OR

What is a Central Bank ? Discuss its important functions.

2 + 8

27. निम्नलिखित समंकों से बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए :

10

(अ) उत्पादन का मूल्य	लाख (रु०)
प्राथमिक क्षेत्र	800
द्वितीयक क्षेत्र	700
तृतीयक क्षेत्र	500
(ब) मध्यवर्ती आगतों का क्रय	लाख (रु०)
प्राथमिक क्षेत्र द्वारा	500
द्वितीयक क्षेत्र द्वारा	300
तृतीयक क्षेत्र द्वारा	200

अथवा

एक उदाहरण और चित्र की सहायता से सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति के सम्बन्ध स्थापित कीजिए ।

Turn

27. Calculate Gross Value added on market from the following data :

10

(A)	Value of Output	Lakh (Rs.)
	Primary Sector	800
	Secondary Sector	700
	Tertiary Sector	500
(B)	Intermediate inputs purchased by	Lakh (Rs.)
	Primary Sector	500
	Secondary Sector	300
	Tertiary Sector	200

OR

Establish the relationship between Marginal propensity to consume and Average propensity to consume with the help of an example and diagram